

- प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी** की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रिमंडल ने **ओडिशा** के **झारसुगुड़ा हवाई अड्डे** का नया नाम **वीर सुरेन्द्र साई हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा** करने की स्वीकृति दे दी है। वीर सुरेन्द्र साई ओडिशा के जाने-माने स्वतंत्रता सेनानी हैं। झारसुगुड़ा हवाई अड्डे को नया नाम देने से ओडिशा सरकार की पुरानी मांग पूरी होगी जो स्थानीय लोगों की भावनाओं के अनुकूल है।
- केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री **डॉ. हर्षवर्धन** द्वारा दिल्ली में दस दिवसीय स्वच्छ हवा अभियान' का शुभारंभ किया जो 01 नवम्बर से 10 नवम्बर, 2018 तक जारी रहेगा। प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर करीबी नजर रखने एवं इस बारे में जानकारी देने के साथ-साथ त्वरित कदम सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और दिल्ली सरकार के मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से 52 टीमों को रवाना किया गया। ये टीमों दिल्ली और इसके समीपवर्ती शहरों यथा फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगी।
- **भारत और जापान** की सेनाओं ने **मिजोरम** के वैरेंटे में एक जंगल युद्ध स्कूल में अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। दो सप्ताह के लंबे अभ्यास **"धर्मा गार्जियन-2018"** का उद्देश्य वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ सामरिक कौशल को बढ़ाने और दोनों बलों के बीच अंतःक्रियाशीलता बढ़ाने के लिए होगा। जापानी सेना का प्रतिनिधित्व 32वीं इन्फैंट्री बटालियन द्वारा किया जा रहा है, जबकि भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व 6/1 गोरखा राइफल्स द्वारा किया जा रहा है।
- गृह मंत्रालय ने **निर्भया कोष योजना** के अंतर्गत लखनऊ के लिए **194.44 करोड़ रुपये** की सुरक्षित नगर परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना केंद्र प्रायोजित होगी और इसमें 60:40 अनुपात में केंद्र और राज्य राशि लगाएंगे। यह स्वीकृति 8 चयनित शहरों – **मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा लखनऊ** में सुरक्षित नगर परियोजनाओं को लागू करने की योजना के भाग के रूप में दी गई है। इसका उद्देश्य निर्भया कोष के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने यू.एन. (हैबिटेट)** के साथ भागीदारी में 31 अक्तुबर को विश्व शहर दिवस, 2018 के अवसर पर नई दिल्ली में अर्बन कैफे: रिवर फॉर हैबिटेट' पर नीति वार्ता का आयोजन किया। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ मानव सभ्यता- हमारे शहर, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के नदियों से गहरे संबंधों तथा स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी के रखरखाव की चुनौतियों और इनसे निपटने के तरीकों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए एकत्र हुए।
- **नीति आयोग और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना** के राज्य परिषद विकास अनुसंधान केंद्र (डीआरसी) के मध्य चौथी वार्ता का मुंबई में आयोजन हुआ। चीन के शिष्टमंडल का नेतृत्व डीआरसी के अध्यक्ष **श्री ली वी** तथा भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के अध्यक्ष **डॉ. राजीव कुमार** ने किया। जुलाई 2018 में जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी** और चीन के राष्ट्रपति **शी जिनपिंग** के मध्य हुई बैठक के बाद भारत और चीन में होने वाली यह दूसरी मंत्री स्तर की वार्ता है।
- **किलोस्कर ऑयल इंजन** (केओईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी **किलोस्कर कैपिटल को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी** (एनबीएफसी) शुरू करने के लिए आरबीआई लाइसेंस प्राप्त हुआ है। कंपनी अगले तीन वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का उधार देने की योजना बना रही है। कंपनी ने इंडो-स्टार कैपिटल फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विमल भंडारी में अपने परिचालनों का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया है।

Science –



- वनों के किनारे दर्पण किस प्रकार के दर्पण है - उत्तल
- The side mirrors of vehicles are of which type of mirrors - Convex
- सेंटीग्रेड पैमाने का आविष्कार किसने किया - एंडर्स सेल्सियस
- Who invented the Centigrade scale - Anders Celsius
- दाब की एसआई इकाई क्या है - पास्कल
- What is the SI unit of pressure - Pascal
- सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, मुख्य रूप से किस कैंसर का कारण बनती हैं - त्वचा कैंसर
- UV rays coming from Sun, majorly causes which cancer - Skin cancer
- हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है - पास्कल का नियम
- On which principle does the hydraulic lift works - Pascal's law
- कौन से हॉर्मोन दिल की धड़कन में वृद्धि करता है - थाइरोक्सिन
- The hormone that stimulates heart beat is - Thyroxine
- किस का उपयोग वायु प्रदूषण संकेतक के रूप में किया जाता है - लाइकेन
- Which is used as an Air pollution indicator - Lichens
- संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड आवश्यक हैं - प्रोटीन
- Amino acids are required for the synthesis of - Proteins
- पौधों का कौन सा हिस्सा हमें केसर देता है - स्टिग्मा
- Which part of the plant gives us saffron - Stigma

